

5th June, 2018

To,
BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,

Mumbai- 400001 Maharashtra

BSE Code: 520051

To,

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051, Maharashtra

NSE Code: JAMNAAUTO

<u>Subject-Notice sent to shareholders for transfer of equity shares and dividend to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account</u>

Dear Sir,

Pursuant to the requirements of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the Notice and copies of newspaper advertisements sent to the shareholders pertaining to transfer of unclaimed dividend and equity shares in respect of which dividend remains unclaimed/unpaid for seven consecutive years to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account.

Kindly take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Jamna Auto Industries Limited

Praveen Lakhera

Company Secretary & Head-Legal

Encl: As above





JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar – 135001, Haryana Corporate Office: Novotel & Pullman Hotel, Commercial Tower, 5th Floor, Asset Area No. 2, Hospitality District, Aerocity, New Delhi-110 037

Telephone: +91 11 45504550, Fax: +91 11 45504551

Website: www.jaispring.com. CIN: L35911HR1965PLC004485

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Sub: Transfer of Unpaid and Unclaimed dividend amount of FY 2010-11(Final) and FY 2011-12 (Interim) and Equity Shares of the Company, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Demat Account maintained by IEPF Authority

Dear Member(s),

This is to inform you that pursuant to Section 124(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act"), if a dividend remains unclaimed for a period of seven years then such dividend is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government. The Company regularly upload the details of unclaimed or unpaid dividends on Company's website on www.jaispring.com so that the shareholders can check their pending dividend for claiming the same before transfer to IEPF. Accordingly, the following are required to be transferred to IEPF:

Particulars of Transfer to IEPF	Due Date of Transfer to IEPF	Last Date by which claim is to be forwarded to the Company
Unpaid Dividend FY 2011-12 (Interim)	September 01, 2018	On or before August 25, 2018
Unpaid Dividend FY 2010-11 (Final)	October 01, 2018	On or before September 25, 2018

In terms of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, ("The Rules"), the Company is mandatorily required to transfer all such shares in respect of which dividend(s) has not been encashed or claimed by the shareholders for 7 (Seven) consecutive years or more, to IEPF Demat Account.

If you have not claimed your dividend for the last 7 consecutive years and the amount(s) are lying unpaid/unclaimed against your folio/ demat account, we request you to submit your claim for the above dividend by sending the following requisite documents to Company's Registrar & Share Transfer Agent:

- (i) A formal letter duly signed by all the holders;
- (ii) Self Attested copy of PAN Card of all the holders; and
- (iii) Self Attested copy of Address Proof of all the holders; and
- (iv) Copy of Cancelled Cheque or Bank Account Details with proof document such as Bank Statement, Passbook etc. of first holder

You are requested to note that if dividend amounts are not claimed within the stipulated time period, the Company will be statutorily required to transfer the shares to the IEPF Demat Account by the due date, without any further notice, by following the process as under:-

- a) In case you hold shares in physical form: Duplicate share certificate(s) will be issued and transferred to the IEPF Demat Account. The original share certificate(s) which is registered in your name and is held by you will stand automatically cancelled.
- b) In case you hold shares in electronic form: Your demat account will be debited for the shares liable for transfer to IEPF Demat Account.

It may also please be noted that all subsequent corporate benefits such as Bonus Shares, Dividend etc. that may accrue in relation to the above shares will also be credited to the said IEPF Demat Account.

Please note that after the transfer of the shares to the IEPF Demat Account, you may claim both the unclaimed dividend amount(s) and the shares from the IEPF Authority, by making an online application in the prescribed Form IEPF-5. The Rules and the application form, as prescribed by the MCA for claiming back the shares/dividend are available on the website i.e. www.iepf.gov.in.

 $In view of the foregoing, you are requested to write to the Company \\ so that it should reach us on or before due date.$

For any communication/clarification, you may contact the following:

Registrar and Share Transfer Agent

M/s. Skyline Financial Services (P) Ltd. Contact Person: Mr. Parveen Sharma

D-153A, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020

Ph. No. +91-11-64732682-88, +91-11-26812682-83

Email: grievances@skylinerta.com; parveen@skylinerta.com

For Jamna Auto Industries Ltd. Sd/-Praveen Lakhera Company Secretary & Head-Legal

Place: New Delhi Date: May 31, 2018

उत्तराखंड में बादल फटने व तूफान से भारी नुकसान

जनसत्ता सवाददाता देहरादून, 1 जून।

उत्तराखंड में शुक्रवार देर शाम बादल फटने व तुफान के कारण राज्य के कई हिस्सों में भारी नुकसान हुआ। गढवाल मंडल के टिहरी जिले के थापलापट्टी गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची है। कई मकान मलबे की चपेट में आने से ढह गए हैं। साथ ही मलबे और पानी में कई मवेशी बह गए हैं। बादल फटने के बाद कई खेत बह गए हैं और पानी की पाइपलाइनें और बिजली के तार टुटने से टिहरी जिले के कई गांवों में अंधेरा छा गया है। पीने के पानी का पाइप कई जगह ट्टने से घरों में पेयजल आपूर्ति बंद हो गई है।

इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में

भारी तुफान व बारिश के चलते देहरादुन स्थित डिफेंस कॉलोनी, इंद्रा कॉलोनी, बसंत विहार, सीमा द्वार और हरिद्वार-ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग व ऋषिकेश-देहरादुन राष्ट्रीय राजमार्ग भारी-भरकम पेड़ों के गिरने से कई जगह बंद हो गया है।

देहरादून-ऋषिकेश मार्ग में एक टैम्पो पर पेड़ गिरने से टैम्पो पलट गया, जिससे उसमें सवार आधा दर्जन सवारियां घायल हो गईं। टिहरी, पौडी, उत्तरकाशी और रूद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते कई जगह भूरखलन होने से चारधाम की यात्रा कई जगह बाधित हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह चौहान ने अगले 24 घंटों में भी उत्तराखंड में आंधी-तूफान और बारिश संभावना जताई है। पौड़ी और उत्तरकाशी में भी बादल फटने की घटनाएं हुई हैं।

आमेर महल में सवारी के दौरान हाथियों पर क्रुरता की जांच का निर्देश

जयपुर, 1 जून (भाषा)।

जयपुर की एक स्थानीय अदालत ने पुलिस विभाग को आमेर महल में हाथी सवारी के दौरान कथित रूप से की जा रही क्रुरता पर जांच करने और उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

अदालत के आदेशानुसार अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस को पशुओं पर अत्याचार और क्रुरता करने वालों आरोपियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के लिए भी निर्देशित किया है। याचिकाकर्ता पीपूल फॉर एनिमल्स की ट्रस्टी गौरी मौलेखी ने अदालत में दायर अपनी याचिका में पशु क्रूरता संरक्षण अधिनियम 1960 के तहत आमेर किले में 103 हाथियों पर निर्धारित सीमा से ज्यादा बोझा ढोने के लिए की जा रही क्रूरता से राहत दिलाने की गुहार

याचिकाकर्ता ने भारत के पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यबीआइ) की हाल की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि हाथियों पर की जा रही क्ररता के चलते उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। याचिकाकर्ता मौलेखी के अनुसार हाथियों पर क्रूरता की याचिका और बोर्ड की रिपोर्ट पर गुरुवार सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले की जांच पुलिस से कराने के निर्देश दिए।

एडब्ल्यूबीआइ के हाल ही के अध्ययन में पाया गया कि हाथी अंधापन, तपेदिक और विभिन्न

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 1 जून।

आदेश पर रोक लगा दी।

तालाबों का जीर्णोद्धार कराने के

दौरान मैंने तय प्रक्रिया का पालन

नहीं किया। सिंघवी ने कहा कि

अब एनजीटी ने जीर्णोद्धार वाले इन

तालाबों को ध्वस्त करने का आदेश

एनजीटी के आदेश पर रोक

का अनुरोध करते हुए सिंघवी ने

कहा-सही काम करने का यह

गलत तरीका है। गोवर्धन में

जीर्णोद्धार कार्यों के दौरान प्रक्रिया

का पालन नहीं किए जाने के

आरोपों पर एनजीटी ने कई

आदेश दिए हैं। एनजीओ ने 24 मई के एनजीटी के आदेश को 30

मई को अदालत में चुनौती दी थी।

एनजीटी के आदेश के बाद

स्थानीय अधिकारियों ने अनयोर

के संकर्षण कुंड और जतीपुर के

रुद्र कुंड में फाउंडेशन द्वारा किए

है भारत : प्रसाद

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री

रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि

भारत मोबाइल निर्माण का

प्रमुख केंद्र बन रहा है और देश

में मोबाइल कारखानों की

संख्या 120 तक पहुंच गई है।

प्रसाद ने यहां कहा, 'जब

हमारी सरकार आई थी, तब

भारत में केवल दो मोबाइल

फैक्ट्रियां थीं। केवल दो।

कितनी फैक्ट्री भारत में आईं?

पिछले साढे तीन साल में 120।

प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है।'

उन्होंने कहा कि सरकार

मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और

इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित अन्य

क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर जोर दे

रही है।

भारत मोबाइल निर्माण का

हैदराबाद, 1 जून (भाषा)।

लगा दी थी।

दिया है जो जनहित में नहीं है।

ब्रज क्षेत्र में तालाबों के जीर्णोद्धार

संबंधी आदेश पर रोक

सप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की तीर्थनगरी गोवर्धन के ब्रज क्षेत्र में

एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा कराए गए तालाबों के

जीर्णोद्धार को ध्वस्त करने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के

आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति

एमएम शांतानागौदर की सदस्यता वाले एक अवकाशकालीन पीठ ने

एनजीओ ब्रज फाउंडेशन की अपील स्वीकार करते हुए एनजीटी के

कहा कि जनहित में जारी आदेश जन-विरोधी आदेश नहीं हो सकता है।

उन्होंने कहा- मेरे(एनजीओ) खिलाफ सबसे गंभीर आरोप यह है कि

एनजीओ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने

प्रकार की पैर की समस्याओं से पीड़ित पाए गए। हाथियों में गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्याएं पाई गई। 47 हाथियों के दांत काट दिए गए। हाथियों को 200 किलोग्राम से अधिक भार उठाते देखा गया था।

वहीं दूसरी ओर पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) ने अपने वकील के जरिए राजस्थान के पुरातत्व और म्यूजियम विभाग को कानूनी नोटिस भेजकर तीन दिन के भीतर हाथी सवारी बंद करने को कहा है। नोटिस की कॉपी वन विभाग को भी भेजी गई है। कानूनी नोटिस की कॉपी के अनुसार पेटा द्वारा भेजे गए नोटिस में बताया गया कि विभाग को हाथियों की सवारी की स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व चिड़ियाघर से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवश्यकता होती है, ऐसे मुख्यवन्य जा विव प्रतिपालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथियों सवारी करने के लिए स्वीकृति दी

किया गया है। ऋण वसूली न्यायाधिकरण-।, दिल्ली जाए या नहीं। चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओ.ए. सं. 785 / 2017 ओरियन्टल बँक ऑफ कॉमर्स आवेदक

शुद्धिपत्र

01.06.2018 को जनसत्ता (हिन्दी, दिल्ली

संस्करण) में प्रकाशित इन्टीग्रेटेड

टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंकेक्षित

वित्तीय परिणाम के नीचे भाग में लिखित

तिथि 30 मई, 2018 के बजाय तिथि

30 मई, 2016 का उल्लेख हुआ था।

अतः निवेदन है कि इसे 30 मई, 2018

ही पढ़ा जाए। त्रृटि के लिए खेद व्यक्त

ए वी एम मार्केटिंग एवं अन्य प्रतिवादीगण एवीएम मार्केटिंग चैम्बर नं. 8, कंचनजंगा अपार्टमेंट, कौशम्बी, गाजियाबाद (यूपी) 201001, <u>और:</u> 51ए, पालिका बाजार, जीटी रोड, गाजियाबाद (यूपी) -201001 <u>और:</u> डी-140,

भूतल, अजय एन्कलेव, तिलक नगर, नई दिल्ली -110018 <u>और:</u> केएफ -111, कवी नगर गाजियाबाद-201001 और: 2 और 2 ए, हनुमान जूट मिल कंपाउंड, पटेल मार्ग गाजियाबाद (यूपी) - 201001

2. श्री संजीव वर्मा पुत्र श्री जेपी वर्मा डी-140, भूतल, अजय एन्कलेव तिलक नगर, नई दिल्ली -110018 <u>और</u> केएफ-111,

कवी नगर गाजियाबाद-201001 3. श्रीमती शेफाली वर्मा पत्नी श्री संजीव वर्मा डी-140, भूतल, अजय एन्कलेव तिलक नगर, नई दिल्ली -110018 और: केएफ-111, कवी नगर गाजियाबाद-201001

जबिक उपरोक्त आवेदक ने आपके विरूद्ध ह. 5,81,70,759/- (रू. पाँच करोड इक्यासी लाख सत्तर हजार सात सौ उनसठ मात्र) की वसूली हेत् एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक **25.07.2018** को पूर्वा. **11.00 बजे** माननीय रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा

रजिस्ट्रार

अधिक जानकारी के लिए कस्टमर केयर नंबर 199 पर ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपरिथति में

वोडाफोन मोबाईल सर्विसेज लिमिटेड मेरे हस्ताक्षर और इस रजिस्ट्रार की मोहर के तहत

(CIN - U64202MH1992PLC296375)

पब्लिक नोटिस

2018 (00.00 hrs) से लागू होगा.

शालीमार टाइटेनियम, प्लॉट नं. TC/G-1/1, विभृति खंड गोमती नगर, लखनऊ - 226010, उत्तर प्रदेश फ़ोन : 0522 7171999, फैक्स: 0522 2723976

उत्तर प्रदेश (पूर्व) के सभी प्रीपेड ग्राहकों को सुचित किया

जाता है कि ₹25 के बेफिक्र पेपर वाउपर पैक में 250MB

हाटा वैधता 365 दिन, की जगह अब ₹25 में ₹18.69

का टॉकराइम प्राप्त होगा. 18% GST और ₹2.50 की

प्रोसेसिंग फीस मान्य होगी. यह परिवर्तन दिनांक 3 जुन

14 मई, 2018 को दिया गया।

Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana Corporate Office: Novotel & Pullman Hotel, Commercial Tower, 5th Floor, Asset Area No. 2, Hospitality District, Aerocity, New Delhi-110 037 Telephone: +91 11 45504550, Fax: +91 11 45504551 Website: www.jaispring.com CIN: L35911HR1965PLC004485

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED

vodafone

encashed or claimed by the shareholders for 7 (Seven) consecutive years or more, to IEPF Demat Account. The details of shareholders whose dividend are unclaimed for seven consecutive years are uploaded on the website of the Company i.e. www.jaispring.com.

are lying unpaid/unclaimed against your folio/ demat account, we request you to submit your claim for the above dividend by sending the following requisite documents to Company's Registrar & Share Transfer Agent:

(i) A formal letter duly signed by all the share holders (ii) Self Attested copy of PAN Card and Address Proof of the all share holders and

(iii) Copy of Cancelled Cheque or Bank Account Details of first holder

Skyline Financial Services (P) Ltd.

Contact Person: Mr. Parveen Sharma

D-153A, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 Ph. No. +91-11-26818682-88

Place: New Delhi

राजस्थान में भीषण गर्मी, चुरू में अधिकतम तापमान ४९.७ डिग्री

जयपुर, 1 जून (भाषा)।

राजस्थान के पश्चिम भाग के चुरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और पिलानी में लू, उमस और भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। चुरू में अधिकतम तापमान 49.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक प्रदेश के चुरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और पिलानी में अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस से लेकर आठ डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान में गुरुवार के मुकाबले लगभग चार डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। तेज धूप और लू के चलते सड़कें सुनसान दिखाई दीं।

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान में गुरुवार के मुकाबले एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई है। चूरू में अधिकतम तापमान 49.7 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 49.1, बीकानेर में 47.7, जैसलमेर में 46.7, पिलानी में 46.1, जयपुर-कोटा में 45.3-45.3, अजमेर में 44.7, बाडमेर में 44.1, जोधपुर में 43.1 और डबोक में 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने आगामी 24 घंटे के दौरान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूलभरी आंधी और तेज हवाओं के चलने की संभावना जताई है।

आंधी-पानी के बाद मिली गर्मी से राहत

लखनऊ, 1 जून (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में गुरुवार शाम आए आंधी-पानी से लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज हवा चलने से सबे के ज्यादातर मंडलों में तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई।

आंचलिक मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। एक-दो जगहों पर भारी वर्षा भी हुई। इस अवधि में बलरामपुर में सबसे ज्यादा सात सेंटीमीटर बारिश रेकॉर्ड की गई। इसके अलावा बिसवां, काकरधारीघाट और शारदानगर में दो-दो सेंटीमीटर, गोंडा, कर्तिनयाघाट, भिनगा, निघासन, सिधौली और पुरनपुर में एक-एक सेंटीमीटर वर्ष दर्ज की गई। तेज हवा चलने और बारिश होने से प्रदेश

के विभिन्न मंडलों के तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया। पिछले 24 घंटे के दौरान इलाहाबाद मंडल में दिन के तापमान में खासी गिरावट हुई। फैजाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी और मुरादाबाद में यह सामान्य से कम रहा।

इस अवधि में फर्रुखाबाद राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस रेकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान गोरखपुर, वाराणसी और फैजाबाद मंडलों में रात के तापमान में भी खासी गिरावट दर्ज की गई। अगले 24 घंटे के दौरान भी प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी-पानी की संभावना है। इस अवधि में सीतापुर, गोंडा, फैजाबाद, वाराणसी समेत कई पूर्वी हिस्सों और बरेली, मुरादाबाद और रामपुर सहित कई पश्चिमी भागों में तेज आंधी चलने के आसार हैं।

निजता पर हमले कर रही है राजग सरकार: कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 1 जून।

Particulars

Total Income from Operations (net)

Paid up equity share capital

Previous year)

Date: 30.05.2018

HML0033377

HML0137756

स्थान: नर्ड दिल्ली

दिनांक: 01.06.2018

3 HML0033377 महेंद्र कमार सोनी

पत्रों में निवेश करने के खिलाफ आगाह किया जाता है।

Place: Delhi

(Face value Re. 2/- per share)

as shown in the Balance Sheet of

Basic and diluted earning per share

Profit before Extra Ordinary Items and tax

Net Profit after Tax and Extraordinary Items

Reserves (excluding Revaluation Reserve

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा की अगुआई वाली केंद्र की राजग सरकार लोगों की निजता पर हमले कर रही है। पार्टी का कहना है कि सरकार किसी न किसी माध्यम से लोगों की जासूसी कर रही है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय

UPELECTRICALS LIMITED

Registered Office: G-83, Room No. 204, Laxmi Nagar, Delhi- 110092

. +91-11-49046355, CIN: L31200DL1971PLC005666 Email id: upelectricals1971@gmail.com, Website: www.upelectricals.in

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND

YEAR ENDED MARCH 31, 2018

Note: The above is an extract of the detailed format of QuarterlyFinancial Results filed with the

Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Require-

ments) Regulations, 2015. The complete format of the Quarterly Financial Results is available

on the Company's website at www.upelectricals.in and also on stock exchange website at

पंजीकृत कार्यालय: 34, कम्यूनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 CJN: L35911DL1984PLC017354, फोन: 011-46044100, फॅक्स: 011-26143321

इमेल: secretarialho@heromotocorp.com, वेबसाइट: www.heromotocorp.com

डिसटिन्कटिव नं.

12249691 12249725

16091634 16091639

16091639 16091641

16091641 16091642

20417132 20417175

3990266 3990315

तक

165869006 165869435 525190

इप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सार्वजनिक सुचना

आम जनता के सदस्यों और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ('कंपनी') के मौजूदा शेयर धारकों को सुचित

किया जाता है कि मूल शेयर प्रमाण पत्र (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) चोरी हो गए हैं / नहीं

मिले हैं / गुम हो गए हैं, ऐसी सचना अनुसारी चिंतित शेयरधारकों दावेदारों से प्राप्त हुई हैं। कंपनी

शेयरों के ऑकित मल्यू रू 10/- प्रत्येक

किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी द्वारा इप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से आपत्ति है तो इस

सचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर लिखित में कंपनी 'सचिवीय डिपॉटमेंट' को प्रस्तुत

करते हुए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजें। इस बीच, जनता के सदस्यों को ऊपर उल्लेख शेयर प्रमाण

महेंद्र कुमार सोनी

अभय शंकर खंडेलवाल

उनके पक्ष में मुल शेयर प्रमाण पत्र के एवज में इप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का इरादा रखती है:

Ended

31.03.2018

(Audited)

41.93

1.53

1.14

356.26

494.32

0.02

जाने पर पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं।

कांग्रेस मुख्यालय में शुक्रवार को संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय की इकाई बेसिल की तरफ से 25 अप्रैल को जारी की गई निविदा का हवाला देते हुए कहा कि निजता पर वार, मोदी सरकार का मुख्य हथियार है बन गया है।

की ओर से सोशल मीडिया हब से जुड़ी निविदा जारी किए उन्होंने कहा कि सूचना व प्रसारण मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया हब बनाने के लिए निविदा जारी की गई और इसके तहत ठेकेदार से कहा गया है कि वह लोगों का सोशल मीडिया का डेटा एकत्र करने का सॉफ्टवेयर मुहैया कराए। यह निविदा 42 करोड़ रुपए की है। उन्होंने इस निविदा का ब्योरा देते हुए सवाल किया कि क्या इसमें निजता का ध्यान रखा गया है?

पंजाब वैश्वानल बैंक U punjab national bank

एआरएमबी, 1ला तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110025 सार्वजनिक सूचना ऋणधारकः श्री साहिल जैन, पुत्र स्व. विनोद कुमार जैन मै. अरिहन्त स्टील के प्रॉप्राइटर

(Rupees in Lakh)

Ended

31.03.2018

580.72

4.31

3.15

356.26

494.32

0.02

(Anil Kumar)

DIN: 02724636

Director

For U P Electricals Limited

213074

213075

213076

327684

कते हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

2

43

50

नीरजा शर्मा

कंपनी सचिव

Quarter

Ended

31.12.2017

(Unudited)

0.77

(0.53)

(0.53)

356.26

494.32

श्री साहिल जैन एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री साहिल जैन, पुत्र स्व. विनोद जैन ने बैंक से रु. 850.00 लाख की ऋण प्राप्त की है तथा उसके पुनर्भुगतान में चूक के कारण इस खाता को 02.01.2013 को एनपीए घोषित किया गया है। दिनांक 27.05.2014 को ऋणधारक को बैंक द्वारा ''विलफुल डिफॉल्टर'' घोषित किया गया है।

बकाया राशिः रु. 1292.18 लाख + 01.04.2018 से ब्याज

ऋणधारक को 01.04.2018 से उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य लागतों/ धनों के साथ रु. 1292.18 लाख की राशि का बैंक को भुगतान करना है जिसके लिए बैंक ने उनके विरुद्ध रिकवरी कार्रवाई शुरू की है।

एतद्द्वारा जन हित में सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित किए जाने के बाद ऋणधारक किसी अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है। शाखा प्रमुख (एजीएम)

तिथि: 02.06.2018 स्थानः नई दिल्ली

> बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda बीआरः भोगलः एडीबीः 2017-18

भोगल शाखा 696, भोगल रोड, भोगल, नई दिल्ली

12.03.2018

श्रीमती संगीता भारद्वाज. 328, दीप कॉटेज, मंडेला कलॉन, नई दिल्ली-110073

संदर्भः श्री ईशपाल भारद्वाज तथा श्रीमती संगीता भारद्वाज को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने तथा उसके विरुद्ध प्रतिनिधित्व के लिए अवसरः

खाता नं. 066406000001010 के संदर्भ में कारण बताओ सुचना हम, आपकी शीर्षांकित खाता का संदर्भ देते हैं, ब्याज/ किस्तों का भुगतान नहीं करने के कारण 6.7.2016 को यह खाता बैंक की पुस्तकों में गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में परिवर्तित हो गया है।

हम आपको सुचित करना चाहते हैं कि हमारे बैंक की विलफुल डिफॉल्टर्स पर कार्यकारिणी समिति के निर्देशों तथा ओमिशन एवं कमीशन के आपके कार्यों, आपके द्वारा निष्पादित प्रलेखों/ दस्तावेजों तथा लेखों पर आधारित आपकी खाता की प्रतिभृति के अनुसार निम्नलिखित आधारों पर भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार ऋणधारकों को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

1. सोसायटी के अन्य कर्मचारियों की मदद से संयुक्त रूप से अपने तथा अपनी पत्नी के नाम में शेयर प्रमाणपत्र, आवंटन पत्र जारी करने तथा कॉन्वीयन्स डीड निष्पादित करने का प्रबंध कर हमारे बैंक से जालसाजी कर आपने आवास ऋण प्राप्त किया। पनः आपने उसी फ्लैट को अलग विवरणों के साथ अन्य व्यक्ति (जिसने आईसीआईसीआई बैंक से आवास ऋण प्राप्त किया) को आवंटित करने का प्रबंध किया। इस प्रकार ऋणधारक ने लेण्डर के प्रति अपने भुगतान/ पुनर्भुगतान दायित्वों को पुरा करने में चुक की है तथा साथ ही बैंक की जानकारी के

बिना सावधि ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से दी गई निर्धारित चल परिसम्पत्तियों अर्थवा अचल सम्पत्ति को निकाल अथवा हटा लिया है। भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए यदि आप ऐसा चाहें, इस पत्र की तिथि से 15 दिनों के भीतर हमारे कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी समिति द्वारा विचार के लिए अपना पक्ष प्रस्तृत करें कि क्युं न आपकी खाता तथा आपको बैंक द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाए। यदि आपका पक्ष प्राप्त होता है, विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकरण का फैसला करने के लिए सिमिति को आपको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने या नहीं देने का अधिकार प्राप्त है। कृपया ध्यान रहे कि यदि इस पत्र की तिथि से 15 दिनों के भीतर विलफुल डिफॉल्टर आपको घोषित करने के बैंक के आशय के प्रति आपका

पक्ष प्राप्त नहीं होता है तो बैंक आगे की कार्रवाई करेगा तथा आपकी खाता को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करेगा। बैंक को समाचार पत्र में विलफुल डिफॉल्टर का नाम तथा फोटोग्राफ प्रकाशित करने का अधिकार है तथा वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार वसली के लिए आवश्यक कार्रवाई शरू करेगा। आपका विश्वासभाजन

वरि. प्रबंधक



इन्टरनशनल

CIN: L74899DL1987PLC030092

पंजी. कार्यालयः 3रा तल, गोपाला टावर, 25, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008 टेली: (91-11) 2574 7696, 2575 1934/35/36, फैक्स: (91-11) 2575 1937/38 ई-मेल:narendermakkar@yahoo.com, वेबसाईट: www.phoenixindia.com

क्रम	विवरण		7	स्टैण्डएलॉन			समेकित	
सं.			समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष	सर्मा	कित
		31.03.2018	31.12.2017	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.20
		(अंकेक्षित)		(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेि
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	1059.22	1103.55	904.74	3964.75	4241.41	3964.75	4241.
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(33.06)	53.53	70.38	107.69	(92.29)	96.87	(100.6
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(33.06)	53.53	70.38	107.69	(92.29)	96.87	(100.6
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	91.30	41.53	38.48	190.05	(72.90)	179.22	(81.2
5.	अविध हेतु कुल व्यापक आय (अविध हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हाानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	98.46	41.53	38.48	197.21	(66.73)	186.39	(75.0
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	1678.96	1678.96	1678.96	1678.96	1678.96	1678.96	1678.
7.	पुनर्मूल्याकंन आरक्षित को छोड़कर अन्य इक्विटी	31,025.78	-	5356.27	31025.78	30902.95	30055.90	29943
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)	0.59	0.25	0.23	1.17	-0.40	1.11	-0
	क) मूल (रु. में) ख) तरल (रु. में)	0.59	0.25	0.23	1.17	-0.40	1.11	-0

टिप्पणी:

- 1. उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनिमयन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई तिमाही तथा वार्षिक समेकित तथा स्टैण्डएलॉन अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही तथा वार्षिक समेकित तथा स्टैण्डएलॉन अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.phoenixindia.com) पर भी उपलब्ध है।
- 2. कम्पनी ने 01.04.2017 से कम्पनी के लिये लागू इंड एएस प्रयुक्त किया है। लेकिन, 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिये उसके वित्तीय परिणामों के तुलना के उद्देश्य से पूर्व वर्ष के आँकड़े पुनर्प्रस्तुत किये गये हैं।
- 3. कम्पनी ने इंड एएस के अंतर्गत कवर के रूप में अपनी भूमि एवं भवनों की पुनर्गणना परिसम्पत्ति के एक क्लास के रूप में की है।
- 4. उपरोक्त परिणाम कम्पनी के अंकेक्षकों द्वारा ''सीमित समीक्षा'' के अधीन हैं तथा उनकी ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा तथा सिफारिश की गई है तथा 30 मई. 2018 को आयोजित उनकी बैठक में बोर्ड द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।
- 5. उसे तुलनीय बनाने के लिये जहाँ भी जरूरी हुआ पूर्व तत्स्थानीय अवधि के आँकड़े पुनर्प्रस्तुत/पुनर्वर्गीकृत किये गये हैं।

बोर्ड के आदेश से फीनिक्स इन्टरनेशनल लिमिटेड के लिये

नरेन्दर कुमार मक्कर

DIN NO. 00026857

निदेशक एवं कम्पनी सचिव

स्थानः दिल्ली तिथि: 30 मई, 2018

जा रहे जीणोद्धार कार्य पर रोक Transfer of Unclaimed Dividend and Equity Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Notice is hereby given to the shareholders pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, मोबाइल निर्माण का Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules"), that all equity shares including all benefits accruing on those shares in respect of which dividend has not been encashed or प्रमुख केंद्र बन रहा claimed by the shareholders for seven consecutive years or more will be transferred by the Company to Investor Education and Protection Fund ("Fund"). Accordingly, the following

Particulars of Transfer to IEPF		Last Date by which claim i to be forwarded to the Company		
Unpaid Dividend FY 2011-12 (Interim)	September 01, 2018	On or before August 25, 201		
Unpaid Dividend FY 2010-11 (Final)	October 01, 2018	On or before September 25, 201		
n terms of Section 124(6) of the Co				

is mandatorily required to transfer all such shares in respect of which no dividend is If you have not claimed your dividend for the last 7 consecutive years and the amount(s)

For any communication/clarification, you may contact the following: Registrar and Share Transfer Agent

Email: grievances@skylinerta.com; parveen@skylinerta.com For Jamna Auto Industries Ltd.

Praveen Lakhera Date: May 31, 2018 Company Secretary & Head-Legal

SATURDAY, JUNE 2, 2018



STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED Visvesvaraya Iron & Steel Plant,

Bhadravati - 577 301 Karnataka

Notice Inviting Tender (Abridged)

Sealed Tenders/ Offers as per prescribed terms are invited for T. No. 3710056, Dt. 25.05.18-Cold Drawing with Black Bar and other Allied Activity. Last date for submission of Tenders / Offers: 15.06.2018 upto 3.00 PM. The tender document will be available in SAIL Website: www.sailtenders.co.in which may be downloaded for submitting the offer. In case tender is extended or any other modifications are made in the tender documents, the same will be uploaded in the SAIL website only. Ph. No. 08282-271621-29, Extn: 2083, Fax No. 08282-271242, e-mail: vislcontractcell@sail-visl.com. AGM (MM & CC)

Regd.Office: SAIL, Ispat Bhavan, Lodi Road, New Delhi-110003 Corporate identity Number: L27109DL1973GOI006454, Website: www.sail.co.in

Amount in Lakh (Rs)

There's a little bit of SAIL in everybody's life

VIVO MOBILE INDIA PRIVATE LIMITED Regd Office: 10th & 11th Floor, Palm Springs Plaza, Village Wazirabad,

Sector-54, Gurugram, Haryana-122003 • CIN: U74999HR2014FTC052934 STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR ENDED ON 31st MARCH, 2018

SI. No.	Particulars	Half year ended 31/03/2018	Half year ended 31/03/2017	Year ended 31/03/2017	Yea ended 31/03/2018
		Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudite
1.	Total Income from Operations	413,803.22	468,584.93	629,296.52	1,117,930.4
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(39,243.73)	(11,254.66)	(11,555.73)	(12,151.28
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(39,243.73)	(11,254.66)	(11,555.73)	(12,151.28
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(39,207.89)	(11,254.66)	(11,396.56)	(12,045.74
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(39,207.89)	(11,254.66)	(11,393.68)	(12,053.3
6.	Paid up Equity Share Capital	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.0
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(43,448.79)	(31,395.46)	(31,395.46)	(43,448.7
8.	Net worth	(40,648.79)	(28,595.46)	(28,595.46)	(40,648.7
9.	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	69,961.50	69,961.50	69,961.50	69,961.5
10	Outstanding Redeemable Preference Shares	(E	-	8	
11.	Debt Equity Ratio	(1.72)	(2.45)	(2.45)	(1.7
12.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	1. Basic:	(140.03)	(40.20)	(40.69)	(43.0
- 1	2. Diluted:	(140.03)	(40.20)	(40.69)	(43.0
13.	Capital Redemption Reserve	3	-:	3 3	
14.	Debenture Redemption Reserve		-		
15.	Debt Service Coverage Ratio	(34.39)	(16.61)	(14.35)	(2.6
16.	Interest Service Coverage Ratio	(35.55)	(17.56)	(15.95)	(3.7

- 1) The above is an extract of the detailed format of unaudited half yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 2) The above unaudited Financials Results of the Company Have been Reviewed by the Audit Committee and Subsequently approved by board of directors of the company at its meeting held on June 01st, 2018.
- 3) The Above unaudited Financials Results have been subject to 'Limited Review' by Statutory Auditors 4) The Company is in to manufacturing and Trading of Mobile Phone and its Accessories and spare parts. 5) The Company had issued 7000 Numbers of Non Convertible Debenture of Rs 10 Lakh each.
- 6) The Net worth of the Company is Rs (40648.79) Lakh and Debt- Equity Ratio as of even date (-) 1.72 times. 7) The figures of perivious periods have been regrouped/rearranged wherever considered necessary

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Jai Springs Road. Industrial Area.

For and on behalf of the Board of Directors Zhiyong Chen (Managing Director)

DIN:07201369

Corporate Office: Novotel & Pullman Hotel, Commercial Tower, 5th Floor, Asset Area No. 2, Hospitality District, Aerocity, New Delhi-110 037

Telephone: +91 11 45504550, Fax: +91 11 45504551 Website: www.jaispring.com CIN: L35911HR1965PLC004485 NOTICE

Yamuna Nagar - 135001, Haryana

Transfer of Unclaimed Dividend and Equity Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Notice is hereby given to the shareholders pursuant to the provisions of the Companies

Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules"), that all equity shares including a benefits accruing on those shares in respect of which dividend has not been encashed or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more will be transferred by the Company to Investor Education and Protection Fund ("Fund"). Accordingly, the following are required to be transferred to IEPF:

Particulars of Transfer to IEPF		Last Date by which claim is to be forwarded to the Company		
Unpaid Dividend FY 2011-12 (Interim)	September 01, 2018	On or before August 25, 2018		
Unpaid Dividend FY 2010-11 (Final)	October 01, 2018	On or before September 25, 2018		

In terms of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with IEPF Rules, the Compan is mandatorily required to transfer all such shares in respect of which no dividend it encashed or claimed by the shareholders for 7 (Seven) consecutive years or more, to IEPF Demat Account. The details of shareholders whose dividend are unclaimed for seven consecutive years are uploaded on the website of the Company i.e. www.jaispring.com.

If you have not claimed your dividend for the last 7 consecutive years and the amount(s are lying unpaid/unclaimed against your folio/ demat account, we request you to submit your claim for the above dividend by sending the following requisite documents to Company's Registrar & Share Transfer Agent:

(i) A formal letter duly signed by all the share holders

(ii) Self Attested copy of PAN Card and Address Proof of the all share holders and (iii) Copy of Cancelled Cheque or Bank Account Details of first holder

For any communication/clarification, you may contact the following:

Registrar and Share Transfer Agent Skyline Financial Services (P) Ltd.

Contact Person: Mr. Parveen Sharma D-153A, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020

Ph. No. +91-11-26818682-88 Email: grievances@skylinerta.com; parveen@skylinerta.com

For Jamna Auto Industries Ltd. Place: New Delhi

Date: May 31, 2018

Praveen Lakhera Company Secretary & Head-Legal

MSL INDUSTRIES LIMITED

CIN: L27105BR1971PLC000891 Regd Office: Urmila Bhawan, Mohalla-Kurji (Balupar), Sadakat Ashram, Patna - 800 010, Phone : 2242-5953/54/3996, Fax: 2242-6182 E-mail: mslskm@bsnl.in; website: NIL

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE **QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018** (Rs. in Lakhs)

81 90	Particulars	Quarter ended* 31.03.2018 Audited		Corresponding 3months ended In the previous year* 31.03.2017 Audited	Yea
1	Total Income from Operations	8.15	8.55	15.07	15.07
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items #) Net Profit / (Loss) for the period	(52.36)	(112.14)	(35.54)	(81.06
	before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(175.36)	(235.44)	(35.54)	(81.06
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items #) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other	(175.36)	(235.44)	(35.54)	(81.06
	Comprehensive Income				
6	(aftertax)] Equity Share Capital Reserves (excluding	(175.36) 868.89	(235.44) 868.89	(35.54) 868.89	(81.06 868.86
8	Revaluation Reserve) Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and	NA.	(3136.87)	N.A.	(2900.82
	discontinued operations) - Basic :	(2.68)			(0.92

(2.68) # The Company dose not Exceptional and Extraordinary Items OR Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with AS

Figures for the Quarter ended 31st March, 2018 and 31st March, 2017 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures. Notes:

The above is an extract of the detailed format of Standalone Audited Financial Results for the guarter and year ended 31st March, 2018. filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the website of BSE (www.bseindia.com), CSE (www.cse-india.com), and on the Company's website.

Beginning from April 01, 2017, the company has for the first time adopted Ind AS with a transistion period from April 01, 2016 till March 31, 2017 and accordingly the above Financial Results have been prepared in acordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind) AS), prescribed under section 1333 of the Companies Act, 2013 read with relevant reles issued thereunder.

The figures of the previous periods have been regrouped/rearranged wherever necessary to confirm current period's classification.

The above audited results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors in their meeting held on 30th May, 2018. By Order of the Board of Directors

Place: Kolkata

Date: 30.05.2018

For MSL Industries Litd.

(S. K. Modi) Managing Director DIN:00184788

General Manager (e-Tender), Mackintosh Burn Limited, (CIN: U45201WB1913SGC002377) invites e-tender from eligible bonafide contractors for the following works under NIeT No.: MBL / TED / NIT 06 of 2018-19:

"Construction of New ITI at Arambag in the District of Hooghly." Esti. value Rs. 7,71,28,612.00

Bid Submission closing on: 23.06.2018

For details visit http://wbtenders.gov.in. Addendum / Corrigendum, if any, would be hosted in the website only.

NOTICE OF SPECIFIED DATE

Notice is hereby given that, Wednesday, 6th June 2018, has been fixed as the SPECIFIED DATE for the purpose of determining the shareholders who shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in the election for one director from amongst the shareholder, other than the Central Government, pursuant to section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 at the 9th Annual General Meeting of the Bank to be held on Friday, 6th July 2018 at Kolkata.

Place: Kolkata Date: June 1, 2018

Esti. value Rs. 4,15,80,979.00

(SAI) of Tata Mutual Fund.

Details of Mr. Prathit D. Bhobe:

any remain unchanged.

(CIN: L24230GJ1972PLC002126)

Website: www.torrentpharma.com

Company www.torrentpharma.com.

Transfer Agents of the Company at the address stated below

respect to transfer of shares or payment of dividend, etc.

Company at the above mentioned addresses.

Place: Ahmedabad

Date : 01st June, 2018

Email Id: investorservices@torrentpharma.com

Torrent Buggma

w.e.f. 29 May, 2018.

Name and Age

Designation

Qualification

Experience

Notes:

Bikramjit Shom Company Secretary & Compliance Officer

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया 🧥 United Bank of India Head Office: 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700 001

General Manager (e-Tender), Mackintosh Burn Limited, (CIN: U45201WB1913SGC002377) invites e-tender from eligible bonafide contractors for the following works under NIeT No.: MBL / WBTIDC / NIT 07 of 2018-19:

a) "Construction of floating type Gangway-cum-Pontoon Jetty at Rangabelia in the District of South 24 Parganas." Esti. value Rs. 2,97,56,960.00 b) "Construction of floating type Gangway-cum-Pontoon Jetty at

Dayapur in the District of South 24 Parganas." Esti. value Rs. 3,71,17,215.00 c) "Construction of floating type Gangway-cum-Pontoon Jetty at Pakhiralaya in the District of South 24 Parganas."

d) "Construction of floating type Gangway-cum-Pontoon Jetty at Jharkhali in the District of South 24 Parganas. Esti. value Rs. 2,98,60,777.00 Bid Submission closing on: 25.06.2018

For details visit http://wbtenders.gov.in. Addendum / Corrigendum,

if any, would be hosted in the website only.

NMDC Limited Khanij Bhavan 10-3-311/A, Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad-500028, Telangana, India Ph: 040-23538713-21, Fax: 040-23538769 CIN: L13100AP1958GOI001674

E-Tender Notice (Open Tender Enquiry for Domestic Bidding) CONTRACTS DEPARTMENT/ENGINEERING & PROJECTS DIVISION

Tender Enquiry No: HO)Contracts)/315 kVA CSS/Hyderabd/2018/175 Dated: 02/06/2018 NMDC invites bids in e-tender mode on MSTC website (NMDC's e-tender service provider): http://mstcecommerce.com for the work of "Supply, installation, testing and commissioning of a 315 kVA, 11/0.433 kV Outdoor Packaged Substation [Compact Substation(CSS)] in NMDC premises (Guest house and CMD_Bungalow) at Banjara hills, Hyderabad"

For viewing/downloading the schedule of e-bidding and the detailed NIT along with prequalification requirements and tender document, prospective bidders may visit MSTC web site link: http://www.mstcecommerce.com/ eprochome/nmdc/ and register on-line as 'New Vendor'. For further help, the Vendor Guide' given therein may be referred. Link to MSTC e-tender platform is also available through NMDC website www.nmdc.co.in. The tender documents can also be accessed from NMDC website: www.nmdc.co.in and CPP Portal http://eprocure.gov.in Any corrigendum to the tender will be uploaded only in above mentioned websites

Prospective bidders should visit these websites from time to time to take note for For further clarification, GM(Contracts), NMDC ltd., Hyderabad can be contacted or

Fax:040-23534746, email:contracts@nmdc.co.in Executive Director (Engineering & Projects)

Mr. Prathit D. Bhobe, 47 years

of banking and wealth management.

ran the Banking vertical in the distribution business.

This notice cum addendum will form an integral part of the Statement of Additional Information.

All other terms & conditions of the Statement of Additional Information read with other addendums if

NOTICE

This **NOTICE** is being published pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013

("Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, ("Rules") effective on 7th September, 2016 and subsequent amendments effective on 28th February,

2017 with respect to transfer of equity shares of the Company to the Demat Account of IEPF Authority. The said

shares correspond to those shareholders who have not claimed dividends for a period of seven consecutive

The Company has already sent a specific communication to the concerned shareholders at their address

registered with the Company, inter alia, providing the details of the shares being transferred to IEPF. Further, the names of the concerned shareholders, their Folio No or DP ID - Client ID are available on the website of the

The concerned shareholders are requested to claim the unclaimed dividend due to them by making an

application immediately along with the Original dividend warrant / Indemnity bond on Non Judicial Stamp

paper of ₹ 100/- as the case may be and send it to Karvy Computershare Pvt. Ltd., ("Karvy"), Registrar and

Karvy Computershare Pvt. Ltd

Karvy Selenium Tower B. Plot 31-32, Gachibowli.

Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032

Tel.: 040 - 67161585; Fax No.: 040 - 23001153;

Email: einward@karvy.com; Website: www.karvy.com

The concerned shareholders are also requested to immediately communicate to the Company with the copy of

the Order in case of any injunctions / restraints orders, etc. obtained from any Court / Statutory authority with

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 4th September,

2018, the Company shall comply with the requirements set out in the Rules, by transferring the unclaimed

The concerned shareholders may note that, upon such transfer, they can claim the said shares alongwith

dividend(s) from IEPF, for which details are available on the website of the Company www.torrentpharma.com

For further information, concerned shareholders may contact Karvy or the Secretarial Department of the

dividend and shares to IEPF Authority by the due date as per the stipulated procedures.

and also on the website of the Ministry of Corporate Affairs at www.iepf.gov.in.

CEO and Managing Director

Corporate Identity Number: TAML - U65990-MH-1994-PLC-077090

TATA

MUTUAL

FUND

NOTICE CUM ADDENDUM

This notice cum addendum sets out changes to be made in the Statement of Additional Information

Mr. Prathit D. Bhobe has been appointed as the CEO and Managing Director of Tata Asset Management Ltd.

B. Com, MMS from Prof. L.N. Welingkar Institute of Management

Liabilities Product, Wealth Management and Private Banking business.

Over 24 years of experience in financial services across various areas

He was with ICICI Bank for more than 11 years where he headed Retail

Prior to ICICI Bank he was with Citibank for 8 years where he successfully

TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED Registered Office: Torrent House, Off Ashram Road,

Ahmedabad - 380 009, Gujarat, India

Phone: + 91 79 26599000

Fax: + 91 79 2658100

LGSPC

NOTICE INVITING TENDER

Gujarat State Petroleum Corporation Ltd. (GSPC), the Operator of Onshore Blocks, invites competitive bids for a Tender under two bid system as per the following

- Engineering Procurement & Construction (EPC) of Quick Production System (QPS) facilities for Ankleshwar Block
- Hiring of crude oil tankers on call out/firm basis for Ankleshwar Block.
- Hiring of Empty Water Tanker for Onshore Blocks
- Hiring of Tanker for disposal of Effluents for Ahmedabad Block.
- Drill Site Civil Works for Onshore Blocks
- Restoration of abandoned Drill Sites for Sanand Miroli, Tarapur & Unawa Blocks.
- Housekeeping services for GSPC Bhavan, Kerala Warehouse and other sites. Tender documents can be downloaded from GSPC website

(http://gspcgroup.com/GSPC/tender.aspx). Details pertaining to the ongoing & New Tenders will be uploaded on the web site on time to time basis.

Hero MotoCorp Limited Regd. Office: 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057 CIN: L35911DL1984PLC017354, Phone: 011-46044100, Fax: 011-26143321

E-mail: secretarialho@heromotocorp.com, Website: www.heromotocorp.com

Public Notice for Issue of Duplicate Share Certificates Members of the general public and existing shareholders of Hero MotoCorp Ltd. "Company") are hereby informed that the original Share Certificates, details of which are given hereunder have been reported lost/misplaced/stolen/not received and that pursuant to requests received from concerned shareholders, the Company intends to issue duplicate Share Certificates in lieu of the said original Shares Certificates in their favour :

Sr.	Folio No.	Shareholder's Name	Distinct	ive Nos.	Certificate	No. o	
No.	35.25 1000.000.000.00		From	То	No.(s)	Share	
		Shares of Face Va	lue of Rs.	10/- each			
1	HML0033377	Mahendra Kumar Soni	12249691	12249725	127975	35	
100			16091634	16091639	213074	5	
			16091639	16091641	213075	2	
			16091641	16091642	213076	1	
			20417132	20417175	327684	43	
2	HML0137756	Abhey Shanker Khandelwal	3990266	3990315	79815	50	

Shares of Face Value of Rs. 2/- each HML0033377 Mahendra Kumar Soni | 165869006 | 165869435 | 525190 |

Any person having objections to the issue of duplicate Share Certificates, as mentioned herein above, may submit the same, in writing, with the Company marked to the 'Secretarial Department' at its Registered Office within 15 days from the date of publication of this Notice. In the meanwhile, members of the public are hereby cautioned against dealing in the above mentioned Share Certificates

> For Hero MotoCorp Ltd. Neerja Sharma

Company Secretary

NMDC Limited

Place: New Delhi

Date: 01.06.2018



GLOBAL OPEN TENDER ENQUIRY

NMDC / Exploration / Tanzania / 2017 / 162 Tenders are invited for "Appointment of Agency for setting up of modular gold pro-

CONTRACTS DEPARTMENT/ENGINEERING AND PROJECTS DIVISION

plant (pilot scale), mine development and allied mine operations for NMDC's Bulyand 'Ombe Mine (Tabora region), Tanzania". The tender document including pre-qualification requirements can be viewed and / or

downloaded from NMDC's website: http://www.nmdc.co.in, (OR) Central Public Procurement (CPP) Portal: www.eprocure.gov.in (OR) MSTC web site: http://mstcecommerce.com. For accessing the tender document for the first time; on-line registration is required as 'New User' at NMDC's web site link http://www.nmdc.co.in/nmdctender/default.aspx. For accessing tender documents from CPP portal click on 'Latest Active tenders'. Intending bidders are also suggested to visit the above websites from time to time for

information on corrigendum issued, if any. For further clarification GM (Contracts) NMDC Ltd., can be contacted on Phone: +91-40-23590440. email: contracts@nmdc.co.in.

Executive Director (Engg. & Proj.)



STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED **DURGAPUR STEEL PLANT** Durgapur-713203, (W.B.)

OPEN INDIGENOUS TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited for 'Replacement of Secondary ventilation suction duct of Mixer in BOF Shop of DSP' (Tender No. DSP/PROJ-PUR/BOF/Suction Duct/SKV/472 dated 30.05.18). Due date for bid submission is 21.06.18. For further details and free download of tender documents, please login to our tender website http://www.sailtenders.co.in. For any other information, please contact 09434792083.

Registered Office: Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi 110 003 Corporate Identity Number: L27109DL1973GOI006454, Website: www.sail.co.in

There's a little bit of SAIL in everybody's life

THINK INK STUDIO LIMITED

(Formerly, Oyeeee Media Limited) CIN: L22300MH2008PLC181234 Regd. Office: Bunglow No. 8/71, Mhada, S V P Nagar, 4 Bunglow Mhada, Andheri (West) Mumbai - 400053, Maharashtra Email: cs@thinkinkstudio.in;Website: www.thinkinkstudio.in

Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 along with the Postal Ballot Form and a self-addressed reply envelope, through permitted mode, in relation totransact the businesses as mentioned in the Notice of the Postal Ballot. The Board of Directors of the company has appointed M/s. Shalu Singhal & Associates, Practicing Company Secretary, as the scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. Duly completed and signed Postal ballot form should reach the scrutinizer not later than the closing of the business hours 05:00 pm (IST) on July 03, 2018. Postal Ballot form received after the said date will be treated strictly as if the reply from the member has not been received. Amember may request the company for a Duplicate Postal Ballot Form, if required. Voting Rights shall be reckoned on the paid-up value of Re. 1/- per share of the shares registered in the name of the members as on the cut-off datei.e. May 25, 2018. The result of postal ballot shall be declared on July 04, 2018 at the company's registered office.

Name: Ms. Komal Behl

For Think Ink Studio Limited (Formerly, Oyeeee Media Limited)

Place: Mumbai Date: 01/06/2018

Komal Behl Company Secretary



DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY D Block, III Floor, Cyber Gateway, Hitec City, Madhapur, Hyderabad - 500081. Tel.No: 040-23122293/23122266 (Fax 040-23122261)

Request for Proposal (RFP) for Technical & Commercial empanelme of Vendors for Implementation of Al based Intelligent Virtual Assistant Chatbot. RFP Fee: Rs. 10,000/-payable along

with Bid Response (nonrefundable). EMD for Rs. 2,50,000/- to be submitted along with Technical Bid. For details/last date of receipt of proposals etc., contact either the above address or visit Andhra Bank Web Site at www.andhrabank.in

General Manager (DIT)



Bharat Heavy Electricals Limited Ramachandrapuram, HYDERABAD - 502 032 Ph.No: 040-23182341, Email:ravivenus@bhel.in

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

TENDER INVITING NOTICE Sealed tenders are invited in Two Part Bid System from reputed manufacturers/Firms/vendors for supply of FIR TREE FORM CUTTER. Visit our website www.bhel.com for details. NIT_38970 (from 02.06.2018) and download tender documents. Last date of receipt of tender is 10.00 hrs 14.06.2018. Any corrigendum to tender will be done only on the website and no paper publication will be given. Bidder shall visit BHEL website before submitting the offer for Sr.Purchase Officer/Pur-CMM



Notice is hereby given that the Certificate(s) for the under mentioned securities of the Bank have been lost/mislaid and the holder(s) of the said securities has/have applied to the Bank to issue Duplicate Share Certificate(s). Any Person who has claim in respect of the said securities should lodge

such claim with the Bank's Share Transfer Agent M/s Link Intime India Pvt. Ltd, 44, Community Centre, 2nd Floor, Naraina Industrial Area, Phase-I, Near PVR Naraina, New Delhi-110028 within 15 days from this date; else the Bank will proceed to issue Duplicate Certificate(s) without further information. S.No. Folio No Distinctive | Certificate | No of Name of

Shareholder Nos Shares 0000009 Smt. Sarla Devi Goel 190706468-49 and Sh. P P Goel 190706516 This information is available on website of the Bank

(www.psbindia.com) under Investor Information (Ajit Singh Ahuja)

Company Secretary (A Government of India Enterprise)

KIOCL LIMITED

II Block, Koramangala, Bengaluru-560034. Tele-fax: 080-25531525, Website: www.kioclltd.in, E-mail: cs@kioclltd.com

Pursuant to Section 124 of the Companies Act 2013, IEPF (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017, the amount of dividend which remains unpaid or unclaimed for the period of seven years or more shall be transferred by Company to the Investor Education & Protection Fund (IEPF) established by the Central

PROTECTION FUND AUTHORITY (IEPFA)

note that as per the said provisions, all Shares in respect of which dividend has not been claimed for seven consecutive years or more will also have to be transferred to the IEPF Authority (IEPFA) by the Company. Dividend for the FY 2010-11 (final) was paid on 06.08.2011 and the unpaid/unclaimed amount is due to be transferred to IEPF on 07.09.2018.

We therefore request Shareholders to forward us the un-encashed Demand Draft(s) for revalidation, as the same is / are outdated. In case the Demand Draft(s) is / are not traceable /

misplaced at your end, kindly contact our transfer agent M/s. Integrated Registry Management Services Private Limited. Shareholders are also requested to refer to the 'Shareholders Information' section of our website to verify the details of unpaid and unclaimed dividend. Notice is hereby given to all such shareholders to make an application to the Registrar /

Company by 20.08.2018 with a request for claiming the unpaid and unclaimed dividend for the financial year 2010-11 (Final) onwards, so that the shares are not transferred to the IEPF Authority.

due date as per the procedure set out in the IEPF Rules and no claim shall lie against the Company in respect of the shares transferred to IEPF pursuant to IEPF Rules. Shareholders may note that the shares transfered to IEPF including all benefits accruing on

procedure given on its website i.e. http://www.iepf.gov.in/IEPFA/refund.html For any queries on the above matter, shareholders are requested to contact

Email: irg@integratedindia.in. for KIOCL Limited. Sd/-(S. K. Padhi)

KUDREMUKH

CIN: L13100KA1976GOI002974

NOTICE TO SHAREHOLDERS FOR TRANSFER OF UNCLAIMED / UNPAID DIVIDEND & EQUITY SHARES THEREOF TO INVESTOR EDUCATION AND

Government under Section 125 of the Companies Act 2013. Shareholders may also please

It may please be noted that if no application is received by the Registrar or the Company by 20.08.2018, KIOCL shall without any further notice, transfer the shares to the IEPF by the

such shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority after following the

the Registrar and Share Transfer Agent M/s. Integrated Registry Management Services Private Limited, No. 30, Ramanna Residency, 4th Cross, Sampige Road, Malleswhwaram, Bengaluru - 560 003. Tel: (080) 23460815-18, Fax: (080) 23460819,

Place: Bengaluru Date: June 2, 2018

Company Secretary

For Torrent Pharmaceuticals Limited

VP (Legal) & Company Secretary

Mahesh Agrawal

NOTICE TO MEMBERS

Members of the Company are hereby informed that Company has on June 01, 2018 completed the dispatch of Notice under section 110 of the Companies Act, 2013 and

In case of any queries, the shareholders may contact the following person:

Designation: Company Secretary Email: cs@thinkinkstudio.in

National Aluminium Company Limited

Bhubaneswar - 751 013, Odisha, India CIN: L27203OR1981GOI000920 A NAVRATNA COMPANY GLOBAL OPEN E-TENDER NOTICE Ref. No. NBC/MM/PR8000000375/

(A Government of India Enterprise)

Nalco Bhawan, Nayapalli,

HOOKING/2018/PT/85. Dtd.24/05/2018 M/s. National Aluminium Company Limited invites on-line digitally signed competitive bids in two parts for supply of Auto Hooking and Un-hooking Machine for Anode Rodding shop-II at Smelter Plant, Angul, Odisha (India) from bonafide indigenous as well as overseas vendors. For further details and downloading Tender Documents please log on to www.nalcoindia.com www.eprocure.gov.in. Bidders are requested to visit the above websites regularly for any modification / addition / bid

and submitting their bids as this information shall not be published in print media. Dy. General Manager (Materials)

due date extension for this tender and take

into consideration the same while preparing

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Place: New Delhi Date: 01.06.2018